



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 फाल्गुन 1940 (श0)
(सं0 पटना 334) पटना, बुधवार, 6 मार्च 2019

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)

अधिसूचना
28 फरवरी 2019

सं0 IV/एम¹-1-22/2018-758—भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 9 की उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल “मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना” के अधीन न्यूनतम मूल्यांकन पंजी (MVR) के अनुसार, रू. 60,000/- (साठ हजार रुपये) तक का आवासीय भू-खंड क्रय से संबंधी दस्तावेज पर प्रभार्य स्टाम्प ड्यूटी के रूप में रू. 50/- (पचास रुपये) मात्र अवधारित करते हैं।

2. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में शामिल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग में से जिन सदस्यों के लिए उक्त योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जानी है, उन्हें दस्तावेजों के निबंधन में छूट प्रदान करने संबंधी प्राधिकार-पत्र समाहर्ता या समाहर्ता द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के स्तर से संबंधित निबंधन पदाधिकारी को निर्गत किया जायेगा।

3. उक्त योजना के अंतर्गत लाभुकों से प्राधिकार पत्र निर्गत करने के पूर्व एक शपथ-पत्र प्राप्त किया जाएगा कि उनके द्वारा “मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना” का लाभ पूर्व में नहीं लिया गया है।

4. यह अधिसूचना के निर्गमन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

28 फरवरी 2019

सं० IV/एम१-1-22/2018-758—उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

The 28th February 2019

No.- IV/M¹-1-22/2018-758—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act 1899 the Governor of Bihar is pleased to determine Rs. 50/- (Rupees fifty) only as the stamp duty payable on the document related to purchase of residential plot of land of amount upto Rs. 60,000 (Rupees Sixty thousands) according to MVR under the "MUKHYAMANTRI VAS STHAL KRAY SAHAYATA YOJNA".

2. People of SC, ST & EBC community mentioned in the waiting list of "PRADHAN MANTRI AWAS YOJNA-GRAMIN", who will get help under the said scheme shall be issued an authority letter for exemption in the registration of the document by the Collector or Officer authorized by the Collector to the related registrar.

3. Before issuing authority letter to the beneficial under the said scheme, an affidavit shall be obtained that they have not obtained benefit, earlier, of the "MUKHYAMANTRI VAS STHAL KRAY SAHAYATA YOJNA".

4. It will come into force from the date of issuance of the notification.

By the Order of the Governor of Bihar,

Amir Subhani,

Add. Chief Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 334-571+500 डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>